

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक- नवम्बर 12, 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***267 वाहनों का चालान , 25 वाहनों से कुल 21800/-रूपया शमन शुल्क वसूल*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा ***188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 00*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व ***मास्क न लगाने वाले कुल- 49 व्यक्तियों से 4900/- रुपये शमन शुल्क*** वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से ***कुल- 17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रामरतन पुत्र स्व0 सुखदेव नि0 महेसपुर थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-147/20 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता 1- जानकी पत्नी रामदेवास नि0 तिकोनिया नर्सरी 2. शीला पत्नी रामचन्द्र नि0 तिकोनिया नर्सरी थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-255/20, धारा-60(1) आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

कस्टम एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त कलामुददीन पुत्र साजिद नि0 शितलापुर थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 57 बोरी कनाडियन मटर बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0- निल/20, धारा- 11 कस्टम अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त नाम पता अज्ञात के कब्जे से 11 बोरी यूरिया खाद व 06 बोरी डीएपी खाद, 03 बोरी पोटैस व 01 बोरी पोटैशियम नाइट्रेट बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0- निल/20, धारा- 11 कस्टम अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए ***कुल-13*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 11/12-11-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 20 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

